

यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स कृत

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

सामान्य हिन्दी

एवं

सामान्य अंग्रेजी

अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर्स

प्रधान सम्पादक

ए.के. महाजन

लेखन सहयोग

परीक्षा विशेषज्ञ समिति

कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण, चरन सिंह, भूपेन्द्र मिश्रा

सम्पादकीय कार्यालय

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002



9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctbooks.com/www.yctfastbook.com/ www.yctbooksprime.com

© All Rights Reserved with Publisher

प्रकाशन घोषणा

प्रधान सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने E:Book by APP Youth Prime BOOKS, से मुद्रित करवाकर, वाई.सी.टी. पब्लिकेशन्स प्रा. लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है।

फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव एवं सहयोग सादर अपेक्षित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

विषय-सूची

हिन्दी

■ वर्णमाला (वर्ण, स्वर, व्यंजन, ध्वनियाँ).....	7-8
■ संज्ञा (लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य)	9-21
■ सर्वनाम	22-22
■ विशेषण	23-24
■ अव्यय	24-24
■ क्रिया विशेषण	25-25
■ क्रिया	25-26
■ उपसर्ग-प्रत्यय	26-29
■ तद्भव-तत्सम	30-31
■ विराम चिह्न	31-31
■ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द	32-35
■ एकार्थक शब्द	36-36
■ वाक्य एवं वाक्य के प्रकार	36-37
■ वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि	38-41
■ विलोम	42-48
■ पर्यायवाची	48-52
■ अनेकार्थी शब्द	53-53
■ सन्धि	53-62
■ मुहावरे	62-70
■ लोकोक्तियाँ	70-71
■ अलंकार	72-75
■ विविध	75-87

अंग्रेजी

■ Spot the Error	88-90
■ One word Substitutions	91-96
■ Improvement of Sentence	97-97
■ Fill in the Blanks	97-102
■ Synonyms/Homonyms	103-111
■ Antonyms	112-118
■ Spelling/Detecting Misspelt Words	119-121
■ Idioms & Phrases	122-130
■ Active/Passive Voice	131-132
■ Direct and Indirect Narration	133-134
■ Shuffling of Sentence Parts	135-135
■ Shuffling of Sentence in a Passage	135-137
■ English/Hindi Words and Terminology used in Office and Their Inter-Translation	138-140
■ Miscellaneous	141-144

प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण

पूर्व परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण चार्ट



क्र. सं.	परीक्षा का नाम एवं परीक्षा वर्ष	प्रश्नों की संख्या
1.	CET, 2022, 2023, 2024	12×100 = 1200
2.	TGT, 2023, 2018, 2015	29×100 = 2900
3.	HSSC 25-27 December, 2021	7 ×100 = 700
4.	Police Constable, 2021, 2024	29 ×100 = 2900
5.	Police Durga Shakti, 2021	1 ×100 = 100
6.	Police constable Male/Female/IRB, 2018 , 2017, 2015	6 ×100 = 600
7.	Police Sub Inspector Male/Female, 2018, 2021	6 ×100 = 600
8.	Assistant Revenue Clerk , 2021	1 ×100 = 100
9.	Commando, 2021	1 ×100 = 100
10.	ALM, 2021	1 ×100 = 100
11.	Gram Sachiv, 2021	4 ×100 = 400
12.	Clerk, 2015, 27.11.2016, 11.12.2016, 20.11.2016, 13.11.2016, 20.11.2016, 27.11.2016, 2019 , 2021	14 ×100 = 1400
13.	Auditor, 2015	1 ×100 = 100
14.	Auditor (Local Audit Department Haryana) 2015	7 ×100 = 700
15.	Accountant (Urban Local Bodies Department, Haryana) 2016	3 ×100 = 300
16.	LDC 2016, 2019	13 ×100 = 1300
17.	CDC UDC Clerk 23.06.2016, 2020	5 ×100 = 500
18.	Shift Attendant, 2016	1 ×100 = 100
19.	Patwari, 2016	1 ×100 = 100
20.	Panchayat Officer, 2015	1 ×100 = 100
21.	Deputy Ranger (Forest Department Haryana) 2015	3 ×100 = 300
22.	PGT, 2015	15 ×100 = 1500
23.	Divisional Accountant Officer , 2016, 2019, 2021	5 ×100 = 500
24.	Industrial Extension Officer at Headquarter (Industries and Commerce Department, Haryana) 2016	6 ×100 = 600
25.	Industries & Commerce Department, 2016	1 ×100 = 100
26.	Taxation Inspector, 2015	1 ×100 = 100
27.	Junior Scale Stenographer English-Hindi, 2017	1 ×100 = 100
28.	Operation Theatre (OT) Assistant Session, 2017, 2021	3 ×100 = 300
29.	Water Pump Operator Grade-II, 2017	1 ×100 = 100
30.	Sanitary Inspector, 2017	6 ×100 = 600
31.	Station Supervisor, 2016	1 ×100 = 100
32.	HSSC, 2018, 2016	4 ×100 = 400
33.	Junior Engineer Paper, 2018	1 ×100 = 100
34.	Accountant (MC), 2018	1 ×100 = 100

35.	Tehsil Welfare Officer, 2018	$3 \times 100 = 300$
36.	Lab Assistant, 2018, 2017	$2 \times 100 = 200$
37.	Group D, 2018,	$8 \times 100 = 800$
38.	Fire Station Officer, 2019	$1 \times 100 = 100$
39.	Table Vadak, 2018	$1 \times 100 = 100$
40.	Agriculture Inspector (Soil Conservation)-2016	$6 \times 100 = 600$
41.	Conductor, 2017	$4 \times 100 = 400$
42.	Wild Life Guard, 2017	$1 \times 100 = 100$
43.	Roadways, 2017	$1 \times 100 = 100$
44.	Field Inspector (Store) 2015	$3 \times 100 = 300$
45.	Tracer (Agriculture Department, Haryana), 2021, 2016	$3 \times 100 = 300$
46.	Staff Nursing, 2021, 2015	$2 \times 200 = 200$
47.	Assistant Sanitary Inspector, 2017	$2 \times 100 = 200$
48.	Mandi Supervisor, 2021	$1 \times 100 = 100$
49.	Food Supply Inspector 2016	$1 \times 100 = 100$
50.	Computer (Health Services Department) 2016	$2 \times 100 = 200$
51.	Assistant Secretary, 2017	$1 \times 100 = 100$
52.	Taxation Inspector, 2017	$1 \times 100 = 100$
53.	Computer, Social Development Industrial training Department, 2019	$1 \times 100 = 100$
54.	Marketing Assistant, 2020 (20.8.2021)	$1 \times 100 = 100$
55.	H.J.S.E. 2020	$1 \times 100 = 100$
56.	Labour Inspector, 2016	$1 \times 100 = 100$
57.	VLDA, 2017 (Animal Husbandry and Dairying Dept.)	$1 \times 100 = 100$
58.	Account Assistant, 2020	$1 \times 100 = 100$
59.	Section Officer, 2020	$1 \times 100 = 100$
60.	Assistant Manager (Utility and Estate), 2019	$2 \times 100 = 200$
61.	Legal Assistant, 2019	$1 \times 100 = 100$
62.	Assistant Accountant, 2019	$1 \times 100 = 100$
63.	Assistant Programmer, 2019	$1 \times 100 = 100$
64.	Lab Technician, 24.07.2021	$1 \times 100 = 100$
65.	Welfare Organizer, 17.07.2021	$1 \times 100 = 100$
66.	Protection Assistant, 2019	$3 \times 100 = 300$
67.	Store Assistant, 2019	$3 \times 100 = 300$
68.	Section Officer Account, 2019	$1 \times 100 = 100$
69.	Junior Accountant, 2019	$1 \times 100 = 100$
70.	Junior Software Developer, 2019	$1 \times 100 = 100$
Total		25800

नोट— उपरोक्त 258 प्रश्न-पत्रों के सम्यक विश्लेषण के उपरान्त यथासंभव समान प्रकृति एवं प्रवृत्ति से बचते हुए **संख्यात्मक अभिवृत्ति/मानसिक अभिरूचि एवं तर्कशक्ति** से सम्बन्धित कुल **25800** से अधिक प्रश्नों को अध्यायवार प्रस्तुत किया गया है।
दुहराव वाले प्रश्नों का परीक्षा वर्ष एवं परीक्षा नाम यथास्थान निर्दिष्ट कर दिया गया है।



पूर्व परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नों का विश्लेषणात्मक पाई चार्ट एवं बार ग्राफ

सामान्य हिन्दी



पूर्व परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नों का विश्लेषणात्मक पाई चार्ट एवं बार ग्राफ

सामान्य अंग्रेजी



(वर्ण, स्वर, व्यंजन, ध्वनियाँ)

1. बड़बड़ाना, खटखटाना और भनभनाना शब्दों में क्रिया के कौन-से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है?
- (a) प्रेरणार्थक धातु (b) एकाक्षरी धातु
(c) अनुकरण धातु (d) संयुक्त धातु
(e) उत्तर नहीं देना चाहते

Haryana (CET) -06/11/2022 Shift-I

Ans. (c) : बड़बड़ाना, खटखटाना तथा भनभनाना शब्दों में क्रिया के अनुकरण धातु का प्रयोग किया गया है। दिए गए अन्य विकल्प असंगत हैं।

अनुकरण धातु – किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनाये जाते हैं, उन्हें अनुकरण धातु कहते हैं। ये धातु ध्वनिसूचक शब्द के अन्त में 'आ' करके 'ना' जोड़ने से बनते हैं। जैसे-बड़बड़ से बड़बड़ाना, खटखट से खटखटाना तथा भनभन से भनभनाना।

2. दो भिन्न-भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को _____ व्यंजन कहते हैं।

- (a) द्वित्व (b) अल्पप्राण
(c) संयुक्त (d) इनमें से कोई नहीं

Haryana Police Cons. 01/11/2021 Shift-III P4

Ans. (c) : दो भिन्न-भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या चार (क्ष, त्र, ज्ञ, श्र) हैं।

3. _____ धातु वे है, जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो, जैसे-करना, बैठना, चलना आदि।

- (a) प्रेरणार्थक (b) यौगिक
(c) मूल (d) इनमें से कोई नहीं

Haryana Police Cons. Ex-02/11/2021 Shift-III

Ans. (c) : वे शब्द, जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो उन्हें 'मूल धातु' कहते हैं। जैसे-करना, बैठना, चलना इत्यादि। जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाये जाते हैं वे यौगिक धातु कहलाते हैं। जैसे-'रंग' से रगना, 'चिकना' से 'चिकनाना' आदि।

4. _____ वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान का है और भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है।

- (a) व्याकरण (b) इतिहास
(c) संकलन (d) इनमें से कोई नहीं

Haryana Police Cons. Ex-02/11/2021 Shift-I

Ans. (a) : 'व्याकरण' वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है तथा भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है।

5. शब्द की रचना में किसका योगदान नहीं होता ?

- (a) प्रत्यय (b) पद
(c) धातु (d) उपसर्ग

HSSC (TGT Hindi)Exam-2015 Shift-I

Ans. (b) : शब्द की रचना में 'पद' का योगदान नहीं होता। जबकि प्रत्यय एवं उपसर्ग का शब्द की रचना में योगदान होता है। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं और उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगकर नए शब्द बनाते हैं।

6. हिन्दी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं?

- (a) अघोष (b) सघोष
(c) अल्पप्राण (d) महाप्राण

HSSC (TGT Hindi)Exam-2015 Shift-I

Ans. (a) : हिन्दी के अघोष वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। जबकि 'घोष' में केवल नाद का उपयोग होता है। अल्पप्राण वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें 'हकार' जैसी ध्वनि न हो। और महाप्राण वे व्यंजन हैं जिसमें श्वास अधिक मात्रा में निकलती है तथा 'हकार' जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है।

7. हिन्दी वर्णमाला में 'अं' और 'अः' क्या हैं?

- (a) स्वर (b) व्यंजन
(c) अयोगवाह (d) संयुक्ताक्षर

HSSC (TGT Hindi)Exam-2015 Shift-I

Ans. (c) : हिन्दी वर्णमाला में 'अं' और 'अः' अयोगवाह हैं। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं, न व्यंजन। अयोगवाह का अर्थ है – योग न होने पर भी जो साथ रहे। स्वर उन वर्णों को कहते हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। जबकि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। संयुक्ताक्षर दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनके बीच स्वर नहीं रहता है। जैसे – उत्थान, प्रस्थान आदि।

8. निम्नलिखित में कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है?

- (a) इ (b) द
(c) श (d) य

Haryana (Cleark) Exam-11/12/2016 Shift-III

Ans. (b) : दिए गए वर्णों में से 'द' वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं होगा। 'द' का उच्चारण स्थान दंत्य है। जबकि इ, श और य का उच्चारण स्थान 'तालव्य' है। च वर्ण का उच्चारण स्थान भी तालव्य है।

9. निम्नलिखित में कौनसे वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है।

- (a) ट (b) थ
(c) ड (d) ऋ

Haryana (Cleark) Exam-11/12/2016 Shift-I

Ans. (b) : दिए गए वर्णों में से 'थ' वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य नहीं है जबकि ट, ड और ऋ का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है।

10. विसर्ग का उच्चारण किसकी भाँति होता है?

- (a) श (b) ष
(c) स (d) ह

Haryana (Cleark) Exam-27/11/2016 Shift-III

Ans. (d) : विसर्ग का उच्चारण 'ह' वर्ण की भाँति होता है। श का उच्चारण स्थान तालव्य, स का उच्चारण स्थान दन्त्य तथा ष का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है।

11. भाषा की सबसे छोटी इकाई है -

- (a) वर्ण (b) शब्द
(c) पद (d) वाक्य

Haryana (Cleark) Exam-27/11/2016 Shift-III

Ans. (a) : भाषा की सबसे छोटी इकाई 'वर्ण' है। जबकि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई 'ध्वनि' है। साथ ही सार्थकता की दृष्टि से देखा जाये तो भाषा की सबसे छोटी इकाई 'शब्द' है। भाषा की व्याकरणिय योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई 'पद' है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को 'वाक्य' कहते हैं।

12. हिन्दी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है?

- (a) दन्त (b) तालु
(c) नासिका (d) कण्ठ

Haryana (Cleark) Exam-13/11/2016 Shift-I

Ans. (c) : हिन्दी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है। इसमें ङ, ज, ण, न, म् वर्ण आते हैं।

13. स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं:

- (a) मात्रा (b) वर्णमाला
(c) उच्चारण स्थान (d) आगत वर्ण

Haryana (Cleark) Exam-13/11/2016 Shift-II

Ans. (a) : स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है, उसे 'मात्रा' कहते हैं। जबकि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को 'वर्णमाला' कहते हैं।

14. 'च' वर्ग का उच्चारण मुँह के किस भाग से होता है?

- (a) कण्ठ (b) मूर्धा
(c) ओष्ठ (d) तालु

Haryana Police Const. (F) Exam-18/03/2018

Ans. (d) : 'च' वर्ग का उच्चारण मुँह के तालु भाग से होता है। च वर्ग के अतिरिक्त इ, ई, य और श का उच्चारण स्थान भी तालव्य है। जबकि 'क' वर्ग का उच्चारण स्थान - कण्ठ, 'ट' वर्ग का उच्चारण स्थान - मूर्धा, 'त' वर्ग का उच्चारण स्थान - दन्त तथा 'प' वर्ग का उच्चारण स्थान - ओष्ठ है।

15. 'नंदनवन' शब्द मेंमात्रायें हैं

- (a) दो (b) चार
(c) छः (d) पाँच

Haryana Police Const. Exam-28/08/2016

Ans. (c) : 'नंदनवन' शब्द में छः मात्रायें हैं। शेष दिए गए अन्य विकल्प असंगत हैं। छन्दशास्त्र के मात्रा नियम के अनुसार नंदनवन में छः मात्राएँ होगी। अनुस्वार वाले वर्ण में गुरु (S) मात्रा का विधान होता है।

16. देवनागरी लिपि में कुल (विसर्ग और अनुस्वार सहित) कितने स्वर माने गये हैं।

- (a) 15 (b) 11
(c) 13 (d) 10

HSSC (Cleark) Exam-22/09/2019 Shift-I

Ans. (c) : देवनागरी लिपि में कुल (विसर्ग और अनुस्वार सहित) 13 स्वर माने गये हैं। साधारणतः वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं। अनुस्वार (ं) और विसर्ग (ः) को अयोगवाह माना गया है। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं न तो व्यंजन हैं। अयोगवाह का अर्थ है - योग न होने पर भी जो साथ रहे।

17. _____ ध्वनि का उच्चारण 'ह' के समान होता है तथा इसे स्वर से परे दो बिंदियों के रूप में लगाया जाता है।

- (a) स्वर (b) व्यंजन
(c) विसर्ग (d) इनमें से कोई नहीं

Haryana Police Const. Exam-31/10/2021 Shift-III

Ans. (c) : विसर्ग ध्वनि का उच्चारण 'ह' के समान होता है। इसे स्वर के परे दो बिंदियों के रूप में लगाया जाता है। विसर्ग को अयोगवाह माना जाता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कण्ठ्य है।

18. जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वे _____ कहलाते हैं।

- (a) ह्रस्व स्वर (b) दीर्घ स्वर
(c) प्लुत स्वर (d) इनमें से कोई नहीं

Haryana Police Const. Exam-31/10/2021 Shift-I


Ans. (c) : जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे 'प्लुत स्वर' कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।

19. हिन्दी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं ?

- (a) 11 (b) 9
(c) 13 (d) 10

Haryana Police Const. Exam-31/10/2021 Shift-I

Ans. (a) : हिन्दी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं -



20. उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को _____ कहते हैं।

- (a) स्वर (b) वर्तनी
(c) विसर्ग (d) इनमें से कोई नहीं

Haryana Police (Durga Shakti) Exam-12/12/2021

Ans. (b) : उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को 'वर्तनी' कहते हैं। किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को 'वर्तनी' या 'अक्षरी' कहते हैं। अंग्रेजी में वर्तनी को 'Spelling' तथा उर्दू में 'हिज्जे' कहते हैं।

(लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य)

1. निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है?

- (a) पाण्डित्य (b) बुद्धिमान
(c) माधुर्य (d) महानता

Haryana (Cleark) Exam-11/12/2016 Shift-I

Ans. (b) : दिए गए शब्दों में से बुद्धिमान शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। शेष दिए गए अन्य शब्द पाण्डित्य, माधुर्य तथा महानता भाववाचक संज्ञा शब्द हैं।

2. 'बूढ़ा' शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है

- (a) बुढ़ापा (b) बूढ़ापा
(c) बुढ़ापन (d) बूढ़ापन

**Haryana (Police) Exam-28/08/2016
HSSC (PGT Geo) Exam- 15/06/2016**

Ans. (a) : 'बूढ़ा' शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप 'बुढ़ापा' है। शेष विकल्प असंगत हैं।

3. उड़ना की भाववाचक संज्ञा रूप है?

- (a) उड़न (b) उड़ान
(c) उड़न (d) उड़ाना

HSSC LDC (Graduate Commerce)-2016

Ans. (b) : उड़ना की भाववाचक संज्ञा रूप - 'उड़ान' है। शेष विकल्प असंगत हैं।

4. बुरा

- (a) बुराई (b) बोरा
(c) बुरापन (d) बुराना

HSSC LDC (Field Office)- 2016

Ans. (a) : 'बुरा' शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप - 'बुराई' है। शेष अन्य विकल्प असंगत हैं।

5. नीचे दिए गए शब्द के विशेषण बनाइये-
दया

- (a) दयालु (b) दयाहीन
(c) दयान (d) दयापन नमक

HSSC CDC UDC-Clerk -23/06/2016

Ans. (a) : 'दया' शब्द का विशेषण शब्द 'दयालु' है। दिए गए शेष अन्य विकल्प असंगत हैं।

निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार उत्तर दिये गये हैं।
उनमें से सही उत्तर चुनकर लिखिए।

6. 'चतुर' शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है।

- (a) चतुराई (b) चातुराई
(c) चतुराइयाँ (d) चतुरा

HSSC Divisional Acc. Officer-24/06/2016

Ans. (a) : 'चतुर' शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप 'चतुराई' है। शेष अन्य विकल्प असंगत हैं।

7. 'लड़का' शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है

- (a) लड़कियाँ (b) लड़की
(c) लड़कपन (d) लड़के

**HSSC (PGT Geo) Exam-15/06/2016
HSSC (SI) Exam-02/12/2018 Shift-I**

Ans. (c) : 'लड़का' शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप 'लड़कपन' है। शेष अन्य विकल्प असंगत हैं।

8. 'शहर' क्या है?

- (a) क्रिया (b) जातिवाचक संज्ञा
(c) अव्यय (d) सर्वनाम

HSSC (SI) Exam-02/12/2018 Shift-II

Ans. (b) : 'शहर' जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें 'जातिवाचक संज्ञा' कहते हैं। जैसे - नदी, घर, कुर्सी आदि।

9. "लड़का कपड़े धोता है" इस वाक्य में, 'कपड़े' का पद परिचय दीजिए।

- (a) भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ताकारक, 'धोता है' क्रिया का कर्ता है
(b) व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, बहुवचन, करणकारक, 'धोता है' क्रिया का करण है
(c) जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्मकारक, 'धोता है' क्रिया का कर्म है
(d) भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्ताकारक, 'धोता है' क्रिया का कर्ता है

HSSC (Group-D) Exam-18/11/2018 Sift-I

Ans. (c) : "लड़का कपड़े धोता है" वाक्य में 'कपड़े' का पद परिचय है - जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्मकारक, धोता है क्रिया का कर्म है।

10. 'मेरी आँखों में दर्द है।' इस वाक्य में 'दर्द' का पद परिचय दीजिए।

- (a) जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ताकारक, 'है' क्रिया का कर्ता है
(b) भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ताकारक, 'है' क्रिया का कर्ता है।
(c) व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक, 'है' क्रिया का कर्म है
(d) व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, करणकारक, 'है' क्रिया का करण है

Haryana (Group-D) Exam-18/11/2018 Sift-III

Ans. (b) : "मेरी आँखों में दर्द है" वाक्य में 'दर्द' का पद परिचय है- भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ताकारक, 'है' क्रिया का कर्ता।

11. "गाय फल खा रही है।" इस वाक्य में "गाय" पद का परिचय दीजिए।

- (a) व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक, 'खा रही है' क्रिया का कर्म
(b) व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग, करण कारक, 'खा रही है' क्रिया का कर्ता
(c) भाववाचक संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक, 'खा रही है' क्रिया का कर्म

- (d) जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, 'खा रही है' क्रिया का कर्ता

HSSC (Group-D) Exam-17/11/2018 Sift-I

Ans. (d) : "गाय फल खा रही है।"

वाक्य में 'गाय' पद का परिचय है- जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, 'खा रही है' क्रिया का कर्ता।

12. 'लड़का पुस्तक पढ़ता है' वाक्य में 'पुस्तक' का पद परिचय दीजिए।

- (a) जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, 'पढ़ता है' क्रिया का कर्म
(b) व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्मकारक, 'पढ़ता है' क्रिया का कर्म
(c) भाव वाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन कर्मकारक, 'पढ़ता है' क्रिया का कर्म
(d) व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन, कर्ताकारक 'पढ़ता है' क्रिया का कर्ता

HSSC (Group-D) Exam-17/11/2018 Sift-III

Ans. (a) : "लड़का पुस्तक पढ़ता है" वाक्य में 'पुस्तक' का परिचय है- जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक, 'पढ़ता है' क्रिया का कर्म।

13. 'समझदार लड़के नहीं लड़ते।' इस वाक्य में 'लड़के' का पद परिचय दीजिए।

- (a) भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्मकारक, 'लड़ते' क्रिया का कर्म
(b) व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, करण कारक, 'लड़ते' क्रिया का कर्म
(c) जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन कर्ताकारक, 'लड़ते' क्रिया का कर्ता
(d) व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्मकारक, 'लड़ते' क्रिया का कर्म

HSSC Group-D Exam-11/11/2018 Sift-II

Ans. (c) : 'समझदार लड़के नहीं लड़ते' वाक्य में 'लड़के' का पद परिचय है - जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ताकारक 'लड़ते' क्रिया का कर्ता।

(I) लिंग

14. 'ज्ञानवान' पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप है

- (a) ज्ञानवती (b) ज्ञानी
(c) सुज्ञानी (d) इनमें से कोई नहीं

HSSC Police Cons. 01/11/2021 Shift-III

Ans. (a) : 'ज्ञानवान' शब्द का स्त्रीलिंग 'ज्ञानवती' होगा। अन्य विकल्प असंगत हैं। अतः विकल्प (a) सही है।

15. दिए गए किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है?

- (a) कहानी (b) एकांकी
(c) जीवनी (d) नाटक
(e) उत्तर नहीं देना चाहते

Haryana (CET) -06/11/2022 Shift-I

Ans. (d) : दिये गये विकल्प में 'नाटक' पुल्लिंग शब्द है। कहानी, एकांकी तथा जीवनी शब्द स्त्रीलिंग हैं।

16. संज्ञाओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है, उसे व्याकरण में _____ कहते हैं।

- (a) कारक (b) संज्ञा
(c) लिंग (d) वचन

HSSC (Cleark) Exam-23/09/2019 Shift-III

Ans. (d) : संज्ञाओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है, उसे व्याकरण में 'वचन' कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं - एकवचन, बहुवचन।

17. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है?

- (a) दुनिया (b) किस्सा
(c) सलाह (d) अदालत
(e) उत्तर नहीं देना चाहते

Haryana (CET) -06/11/2022 Shift-I

Ans. (b) : दिये गये विकल्पों में 'किस्सा' शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। जबकि दुनिया, सलाह और अदालत स्त्रीलिंग शब्द हैं।

स्त्रीलिंग - शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह स्त्री जाति का है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे - बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, नारी इत्यादि।

18. सम्राट् शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है?

- (a) सम्राटनी (b) सम्राज्ञी
(c) साम्राज्ञी (d) सम्रागी

Haryana (Cleark) Exam-11/12/2016 Shift-III

Ans. (b) : 'सम्राट्' शब्द का स्त्रीलिंग 'सम्राज्ञी' होता है।

19. पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए :

- (a) हड़ताल (b) पुलिस
(c) सरकार (d) संविधान

Haryana Police Const. (F) Exam-18/03/2018

Ans. (d) : 'संविधान' शब्द पुल्लिंग है। जबकि हड़ताल, पुलिस और सरकार शब्द स्त्रीलिंग हैं।

20. 'भाई' शब्द का स्त्रीलिंग रूप है

- (a) लड़की (b) बेटी
(c) बेटा (d) बहन

Haryana Police Cons. Exam-28/08/2016

Ans. (d) : 'भाई' शब्द का स्त्रीलिंग 'बहन' होगा।

पुल्लिंग शब्द	स्त्रीलिंग शब्द
बेटा	बेटी
लड़का	लड़की

21. 'विद्वान' का स्त्रीलिंग रूप है

- (a) विद्वनी (b) विद्वान्ती
(c) विदुषी (d) विदुशी

HSSC LDC (Field Office)- 2016

Ans. (c) : 'विद्वान' शब्द का स्त्रीलिंग रूप 'विदुषी' है।

22. 'बालक' शब्द का स्त्रीलिंग रूप है

- (a) लड़की (b) बेटी
(c) बालिका (d) बालका

HSSC Divisional Acc. Officer-24/06/2016

Ans. (c) : 'बालक' का स्त्रीलिंग रूप 'बालिका' है।

23. निम्न में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है?

- (a) आँचल, आँधी
(b) आत्मा, पुस्तक
(c) आदित्य, आंतिका
(d) कांति, कौतुहल

HSSC Conductor- 10/09/2017